

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त 2010—श्रावण 12, शक 1932

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्र. एफ. 15-15-2006-दस-2.—राज्य शासन एतद्वारा पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के अनुक्रम में, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड में भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.पी. शर्मा, अपर सचिव.